



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 26.11.2021

1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 फर्जी आधार कार्ड, 01 फर्जी पैन कार्ड व 01 एटीएम कार्ड बरामद।

दिनांक 25.11.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त अनिल नागर पुत्र मिंदर निवासी ग्राम इमलिया, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के 90 कट का चौराहा, सेक्टर-137, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 फर्जी आधार कार्ड, 01 फर्जी पैन कार्ड व 01 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है, जिनका प्रयोग अभियुक्त फर्जी नाम-पते के रूप में करता था।

### अभियुक्त का विवरण:

अनिल नागर पुत्र मिंदर निवासी ग्राम इमलिया, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 933/21 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण:

- 1.एक फर्जी आधार कार्ड
- 2.एक फर्जी पैन कार्ड
- 3.एक कोटक महेन्द्रा बैंक का ए.टी.एम. कार्ड



**2-थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस द्वारा जनपद बरेली से 25,000 रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 बिना नम्बर प्लेट की स्कूटी बरामद।**

दिनांक 25.11.2021 को थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस द्वारा जनपद बरेली से 25,000 रूपये का ईनामी अभियुक्त मोनू उर्फ हेमन्त पुत्र गुलशन कुमार निवासी सी0ब्लाक, गीता कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली को थाना क्षेत्र के छपरौली कट पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 बिना नम्बर प्लेट की एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई है।

उक्त अभियुक्त थाना फरीदपुर, जनपद बरेली से मु0अ0सं0 278/21 धारा 411/413/414/420 /467/468/471 भादवि में 25,000 रूपये का ईनामी है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

मोनू उर्फ हेमन्त पुत्र गुलशन कुमार निवासी सी0ब्लाक, गीता कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

1.मु0अ0सं0 406/021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 278/21 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना फरीदपुर, जनपद बरेली।

### **बरामदगी का विवरण:**

1.01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस।

2.01 स्कूटी एक्टिवा बिना नम्बर प्लेट।



## #थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा महिला का खोया हुआ पर्स व पर्स के अंदर रखे 35,000 रूपये सकुशल ढूंढकर महिला के सुपुर्द किए गए।

दिनांक 26/11/2021 को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला चन्दना रानी पत्नी श्री धर्मवीर निवासी एस्कोर्ट मुजेसर, थाना सेक्टर-7, जिला फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा अंसल प्लाजा चौकी पर सूचना दी गई की वह अपनी माताजी के साथ अपनी बहन की फीस जमा करने मैट्रो कॉलेज, नॉलेज पार्क-3 पर आयी थी। वापस लौटते समय उनका पर्स ऑटो में छूट गया है जिसमें 35,000 रूपये रखे हुए थे। उक्त सूचना पाकर अंसल प्लाजा चौकी प्रभारी शरद यादव, थार मोबाइल पर नियुक्त है0का0 अनिल कुमार व का0 सन्दीप सिंह द्वारा सीसीटीवी कैमरों की सहायता से उक्त ऑटो की तलाश शुरू कर दी गई। कड़े प्रयास व मेहनत से पुलिसकर्मियों द्वारा ऑटो का पता लगाकर उक्त ऑटो को ढूंढ लिया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा ऑटो चेक किया गया तो महिला का पर्स ऑटो में ही पीछे पडा मिला जिसके सम्बन्ध में ऑटो चालक को भी जानकारी नहीं थी। उक्त पर्स में 35,000 रूपये नकद व कुछ अन्य सामान था जिसको सकुशल बरामद कर श्रीमती चन्दना रानी व उनकी माता जी के सुपुर्द किया गया। दोनों महिलाओं द्वारा पुलिस का आभार जताते हुए कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रशंसा की गयी है।